



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 8—मई 14, 2010 (वैशाख 18, 1932)

No. 19]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8—MAY 14, 2010 (VAISAKHA 18, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. डीपी/पर्स.1/2010/1195/3/8/2010--राष्ट्रपति, श्री राजीव शर्मा, भा.
पु.सेवा (राजस्थान : 1990) को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में
दिनांक 12.04.2010 के पूर्वाह्न से प्रारम्भ में पांच वर्ष की अवधि के लिए
या अगले आदेशों तक पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

एम. सचदेव

प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 11/20/2009-प्रशा.(एफ.एस.)--राष्ट्रपति, डॉ. ए. के. श्रीवास्तव
को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान

प्रयोगशाला, हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II (विस्फोटक)
के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति पर वेतन बैंड पी.बी.-3 (रु. 15,600--
39,100/-) व ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में दिनांक 01.03.2010 से नियुक्त
करते हैं।

सी. एन. भट्टाचार्य

प्रभारी-निदेशक व मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अप्रैल 2010

सं. ओ-दो-6393/2010-कार्मिक(डी.ए.5)--सरकारी सेवा से
स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 07.01.2010 के स्वीकार
हो जाने के फलस्वरूप श्री के. आर. हीरेमथ, सहायक कमाण्डेन्ट
(आई.आर.एल.ए.-6393) गुप केन्द्र, केरिपु बल, सिलीगुड़ी ने
दिनांक 01.04.2010 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया।

तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.04.2010 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

टी. चन्द्रशेखरन
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. पी.तीन-2/2010-मंत्रा.--सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप आन्तरिक लेखा परीक्षण-3, के.रि.पु.बल, नई दिल्ली के श्री पी. के. मनुमदार (इरला संख्या-6356) ने संयुक्त सहायक निदेशक का पदभार दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) को त्याग दिया।

रविन्द्र नाथ मिश्र
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेंतार)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. ए-17011/18/(एच-51)/2009-प्रशा.-1--इस निदेशालय के श्री हरमेश चन्दर बनोट, अतिरिक्त सहायक निदेशक अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.03.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

पी. के. सिंहल
निदेशक

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 अप्रैल 2010

सं. ई-16015/60/एनआई/कार्मिक-1/74--राष्ट्रीय जाँच आयोग में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर डी.एस.पी. के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री देवन्द्र सिंह बालू, सहायक कमाण्डेन्ट ने दिनांक 10.08.2009 से सहायक कमाण्डेन्ट, के.औसुब, चौथी आरक्षित वाहिनी, जयपुर से कार्यमुक्त हुए।

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16013/1/1/03/कार्मिक-2/75--प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री अनुराग शर्मा, भा.पु.से. (ए.पी.-82), महानिरीक्षक, के.औसुब ने दिनांक 17.04.2010 (अपराह्न) को महानिरीक्षक, के.औसुब, नी.सा. हैदराबाद, के पद से कार्यमुक्त हुए।

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 1/39/2008-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग के अधिकारी श्री हेज कोजीन, भा.प्र.से. (एजीएमयू : 93) को अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के आधार पर 22.01.2010 (पूर्वाह्न) से मई, 2011 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, निदेशक के उनके वर्तमान स्तर पर निदेशक, जनगणना कार्य, पुडुच्चेरी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री हेज कोजीन का मुख्यालय पुडुच्चेरी होगा।

एस. कन्नप्पन
अवर सचिव

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (सिविल लेखा परीक्षा), आन्ध्रप्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. प्र-1/पदोन्नति/5-4/2010-2011/03--मुख्यालय पत्र सं. 697-6 पीसी/जीई-11/22-2009 दिनांक 27.05.2009 के अनुसार निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- ग्रेड पे रु. 4,800/- के साथ सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है और यह अधिकारी कार्यालय आदेश सं. 34 दिनांक 17.06.2009 के अनुसार ग्रुप बी राजपत्रित की श्रेणी में आएंगे जो कि दिनांक 27.05.2009 से प्रभावी माना जाएगा :--

क्रम सं. कर्मचारियों के नाम

1	2
	श्री/श्रीमती/कुमारी
1.	जे. एस. आर. चंद्रशेखर
2.	हुस्नारा
3.	के. सुभाषिणी
4.	जी. बी. सुब्रमण्य शर्मा
5.	डी. श्री. वल्ली
6.	वी. स्वामीनाथन
7.	डी. संगीता
8.	टी. नागी रेड्डी
9.	पी. विजय लक्ष्मी
10.	बी. विजय लक्ष्मी
11.	ब्रजेश कुमार
12.	दीपक सिंह खत्री
13.	शिव शंकर

1	2	1	2
14.	सुबोध कुमार	47.	एन. रमा देवी
15.	आनंद प्रकाश द्विवेदी	48.	एम. जानकी देवी
16.	धवल किशोर सिंह	49.	आर. जयप्रदा
17.	अर्जुन सिंह	50.	सुरम्पूडि बी. वी. एस. प्रसाद
18.	बी. निर्मला	51.	टी. वी. रमणा
19.	प्रीतम कुमार	52.	आर. जय रामन
20.	कृष्ण बिहारी यादव	53.	ए. महादेवन
21.	विनय कुमार	54.	जी. वी. एस. प्रसाद
22.	अरूण लाल चौधरी	55.	वी. एन. वी. शोभनाद्री स्वामी
23.	मोहिन्दर सिंह	56.	वी. चन्द्रमौली
24.	रविन्द्र प्रसाद	57.	ए. आर.के. वी. रमणा
25.	बी. दुर्गा नागेश्वर राव	58.	आई. फणीन्द्रा
26.	के. रघुराज	59.	वी. वी. एस. प्रसाद
27.	ए. पद्मालता	60.	के. राजेश्वर दयाल
28.	के. रामा कृष्णा	61.	एम. टी. एन. एस. रेड्डी
29.	एम. श्री निवास-III	62.	जी. गंगाधर राव
30.	जे. नागा श्रीनिवास राव	63.	पी. आर. चंद्रशेखर
31.	पी. सुब्रह्मण्यम	64.	एम. वी. शेषुबाबू
32.	एल. एस. विश्वेश्वरा रेड्डी	65.	वी. विजय कुमारी
33.	वी. कुमार योना	66.	बी. एच. वसंता लक्ष्मी
34.	सी. वेणुमाधव	67.	सुरेश कन्वापुरी
35.	के. ईश्वराचारी	68.	टी. सी. रामा राव
36.	जी. श्रीनिवास	69.	अनुराग कृष्णा
37.	मो. शरीफ शेक	70.	संजीव कुमार
38.	ए. मिहीर कल्याण कुमार	71.	सुमंत कुमार
39.	आर. बाबू राव	72.	नौरेम बसंता सिंह
40.	पी. रमेश	73.	नोरबू बांगड़ी दुक्पा
41.	एम. पद्मावती	74.	आर. भानु मूर्ति
42.	वी. ज्योति	75.	डी. वी. वी. रामदास
43.	एम. जनार्दन राजू	76.	इम्तियाज़ अहमद
44.	सी. वी. एस. एस. वी. आर. प्रसाद	77.	सी. सुरेन्द्र रेड्डी
45.	के. सुरेखा	78.	के. पी. विजया वैरोनिका
46.	आर. प्रभाकर	79.	पी. ज्योती रानी

1	2	1	2
80.	रामचंद्र साहू	113.	अत्युत्थाचारी
81.	के. मानसा कुमारी	114.	के. नरसिंह राव
82.	बी. जीवन बाबू	115.	डी. मुरली कृष्णा
83.	के. श्रीनिवास रेड्डी	116.	आर. जगदीश
84.	बी. रुक्मणी नाथ	117.	मेरी जया जोसे
85.	एस. गीता कुमारी	118.	आर. अनीता कुमारी
86.	के. सत्यनारायणा मूर्ति-VII	119.	बी. श्रीनिवास चारी
87.	आर. बी. शिवराम कृष्णा	120.	सरदार अर्जुन सिंह
88.	एस. वी. एस. एस. प्रसाद	121.	कल्पना
89.	एम. गंगाधर प्रसाद	122.	पी. सुधाकर
90.	सी. एच. बी. भास्कर राव	123.	एम. चंद्रशेखर
91.	जे. श्रीनिवास राव-II	124.	एम. बी. एस. फणी कुमार
92.	एस. नरसिंह राव	125.	के. वी. शेषा यशो कृष्णा
93.	बी. आर. के. श्रीनिवास मूर्ति	126.	टी. राम प्रसाद
94.	जी. पी. सुब्रह्मण्यम	127.	वाई. तेजोरवी कुमार
95.	डी. पद्मजा	128.	ए. रजनी कांत
96.	अविनाश कुलकर्णी	129.	वी. रविन्द्र कुमार
97.	के. शेखर	130.	हेमन्त कुमार
98.	बी. नागराज राव	131.	अमित कुमार
99.	जी. रामकृष्णा	132.	एच. राजेश्वर
100.	पद्मा सी. एन. एस. के. राव	133.	बी. रवि चंद्र कुमार
101.	गीताश्री पांडा	134.	ए. आर. शर्मिला
102.	के. चंद्रशेखर	135.	के. गोविन्द राव
103.	जी. पद्मजा	136.	सी. श्रीलता
104.	एम. रत्नाकर	137.	जी. विजय कुमार
105.	ई. आर. एस. सुजन कुमार	138.	बी. एन. बी. कामेश्वर राव
106.	डी. रमेश कुमार	139.	सी. एच. मुरलीधर
107.	एन. रवि कुमार	140.	वाई. जयराम
108.	सी. आनन्द राज	141.	के. हरीबाबू
109.	एस. जगन मोहन	142.	एम. एल. माधव राव
110.	जे. श्रीकृष्णा वेणी	143.	अब्दुल करीम अंसारी
111.	बी. रमेश कुमार	144.	के. नागराजू
112.	एस. धनराज रेड्डी	145.	डी. श्रीधर कुमार

पी. माधवी
उ.म.ले. (प्रशा.)

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) आंध्रप्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. प्रशा.-1/लेवह/1/4-26/2010-2011/2--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हैदराबाद ने निम्नलिखित तदर्थ सहायक लेखा अधिकारी को सहायक लेखा अधिकारी के रूप में स्थानापन्न के लिए रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड में रु. 4,800/- के संवर्ग वेतन के साथ उनके नाम के सम्मुख बतायी गई प्रभावी तिथि से सहर्ष नियमित किया है :-

नाम	का.आ.स. व तिथि	कार्यभार ग्रहण की तिथि
श्री के जयराम	Admn.-1/A&E/1/4-26/ 2009-10/128 dt. 12.03.2010	12.03.2010

इस पदोन्नति के आदेश उनके वरिष्ठों के दावों, यदि कोई हो तो, पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन जारी किए जाते हैं।

ई. श्रीनिवासन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 23 अप्रैल 2010

सं. का.स्था.(ह व रो)/ई-IV पें/11--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती के. आर. सुजाता	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)
2.	श्रीमती जी. जयाकुमारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)
3.	श्री डी. सैमण	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)
4.	श्रीमती के. इंदिरा (सं. 2)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)
5.	श्रीमती सी. के. लीला	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)
6.	श्री के. सी. राजन	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोषिकोड	31.03.2010 अपा. (अधिर्वर्षिता)

के. विजयकुमारन
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 1269ए/ए-19011(2-आर.के.सी.)/2008/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री चिलुवुरु रवि कुमार को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ वेतन बैंड-3 के वेतनमान रु. 15,600--39,100/- में सामान्य नियमानुसार अस्थायी आधार पर 27.01.2010 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. साहा
निदेशक (भूभौतिकी)
कृते महानिदेशक

सं. 1270ए/ए-19011(2-वी.के.2008/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री विवेक कुमार को भूभौतिकीविद् (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ वेतन बैंड-3 के वेतनमान रु. 15,600--39,100/- में सामान्य नियमानुसार अस्थायी आधार पर 25.11.2009 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. साहा
निदेशक (भूभौतिकी)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 8 मार्च 2010

सं. पीडी/2(1)(ii)/2008-भर्ती-IV/2485--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाये गये पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
1.	श्री डी. श्रीनिवास	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- (ग्रेड पे)	12.01.2010 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ. निरज शरद कासट	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/- (ग्रेड पे) + एन.पी.ए.	01.02.2010 (पूर्वाह्न)

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 31 मार्च 2010

सं. पीडी/11(1)/2010-भर्ती-III/2010/3135--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री वी. राधाकृष्णन, सहायक को दिनांक 08.02.2010 (पूर्वाह्न) से 31.03.2010 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के

वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 12 अप्रैल 2010

सं. पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/एसओ/सी/3362--राष्ट्रपति, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड एसबी पे बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- को वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड सी के पद पर पे बैंड रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में, 01 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक, स्थानापन्न रूप में इसी अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम

1. श्री मणिकावसगम भारतीराजा
2. श्री मोहन मुकुंदन

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

शुद्धिपत्र

सं. पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/टीओ/सी/ईटीजी/33473--क्रमांक पीडी/7(17)/2009/भर्ती-IV/टीओ(सी)/ईटीजी/2472 दिनांक मार्च 08, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना के संदर्भ में। उपर्युक्त अधिसूचना में दर्शायी गयी प्रभावी पे बैंड को संशोधित कर रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के बदले रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- के अनुसार पढ़ा जाए।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III/2010/3474--नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री रविन्द्र वसंत बिलगी, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 02.02.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,200/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III/2010/3475--नियंत्रक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जयश्री सदाशिवन नायर, आशुलिपिक श्रेणी-I को दिनांक 02.02.2010 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--

34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,200/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. 6(2389)04-प्रशा./2975--परमाणु ऊर्जा विभाग के अपर सचिव, एतद्वारा पऊवि सचिवालय, मुम्बई की सहायक, श्रीमती सुनीता डी. पाटिल (पीबी-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,200/-) को पदोन्नत करके दिनांक 11 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में अनुभाग अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

सं. 6(2442)/2006-प्रशा./2976--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई के अवर सचिव, (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) श्री ओ. टी. जी. नायर की सेवा का विस्तार दिनांक 14.03.2010 से एक वर्ष की अवधि हेतु या अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

दिनांक 29 मार्च 2010

सं. 6(2524)/2010-प्रशा./3002--राष्ट्रपति, श्रीमती मीनाक्षी रावत (आईईएस : 93) को दिनांक 15 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में (वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 15 अप्रैल 2010

सं. क्रभनि/07020/भर्ती/1542--राष्ट्रपति, इस विभाग की श्रीमती मालती शिवकुमार, सहायक भंडार अधिकारी (वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-), केन्द्रीय भंडार एकक, मुम्बई, को दिनांक 05 अप्रैल, 2010 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक भंडार एकक, आरआरकैट, इंदौर, में भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में नियुक्त करते हैं।

कैथरीन राज
प्रशासन अधिकारी-III

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सं. भापाबो/भर्ती/26(2)/2010/285--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा/मणुगुरु/कोय), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई के निम्नलिखित समूह 'क' अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाये गये दिनांक से स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	वर्तमान ग्रेड	इकाई भापाबो/भापासं	ग्रेड जिसमें स्थायी रूप से नियुक्त किये गये	स्थायीकरण की तिथि
(सर्वश्री)					
भापासं (बड़ौदा)					
1.	विजय चटर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	बड़ौदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
2.	नितिन रावत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	बड़ौदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
3.	कृ. सत्यश्विनी आर. अय्यर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	बड़ौदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
4.	अनुराग दीक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	बड़ौदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2010
भापासं (मणुगुरु)					
5.	एम. सायदा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2008
6.	सुशील कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
7.	डेनवर लोपेज़	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	मणुगुरु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
भापासं (कोय)					
8.	राकेश कुमार जोशी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.10.2009
9.	सुशील कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
10.	अभिमन्यु एस. ढाकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
11.	चंद्रशेखर एम. दुडगी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
12.	अशोक कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
13.	सतीश कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	कोय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009
भापाबो (कें.का.)					
14.	रुचिर शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापाबो (कें.का.)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2009

जी. एम. नायर
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद, दिनांक 8 अप्रैल 2010

सं. नाईस/काप्रभ.1/03/58/283--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री ए. पार्थसारथी, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 4,800/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300--34,800/- के पे बैंड-2 में तदर्थ आधार पर दिनांक 07.04.2010 से 07.05.2010 अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्वघटित हो, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. ए-19011/04/2009-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय के श्री आर. चित्रादुराई, उप महानिदेशक (विमान इंजीनियरी निदेशालय) के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2010 (पूर्वाह्न) से स्वीकृत किया जाता है और श्री आर. चित्रादुराई, उप महानिदेशक (विमान इंजीनियरी निदेशालय) को नागर विमानन महानिदेशक के कार्यालय से दिनांक 01.05.2010 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. उन्नीकृष्णन
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 अप्रैल 2010

सं. ए-39012/02/2010-ई-II--राष्ट्रपति, महोदय नागर विमानन विभाग के श्री जगन्नाथ मंडल, वरिष्ठ उड़नयोग्यता अधिकारी का सरकारी सेवा से त्यागपत्र सह प्र स्वीकार करते हैं और उनको दिनांक 26.04.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त करते हैं।

के. उन्नीकृष्णन
उपनिदेशक उड़नयोग्यता

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कंपनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चण्डीगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/जेपीआर/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30712	मैसर्स अलकैमिस्ट वेल-बीईंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	16681	मैसर्स क्रोजी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	27209	मैसर्स ऑस्टर एप्लाइसेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	32002	मैसर्स बी.एस. एबीएशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	25628	मैसर्स नेवीगेटर मैनेजिंग एण्ड कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	27354	मैसर्स कन्धारी एबीएशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	07596	मैसर्स के. शटलज इण्डिया लिमिटेड
8.	12107	मैसर्स दशमेश फेब यॉर्न लिमिटेड
9.	04535	मैसर्स दशमेश बायो फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	13263	मैसर्स टी.सी.एल. एमप्लाइज वेलफेयर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
11.	20921	मैसर्स दशमेश टेलीकम्यूनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
12.	20423	मैसर्स मान होस्पिटल एण्ड मैटेरिटी होम प्राईवेट लिमिटेड
13.	29720	मैसर्स मन्डी गोविन्दगढ़ पावर प्लांट प्राईवेट लिमिटेड
14.	17323	मैसर्स सेलीब्रेटी फॉरिस्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
15.	23132	मैसर्स ट्वेन्टी सैकण्ड सैचुरी टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
16.	25782	मैसर्स नाविक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
17.	19048	मैसर्स हाईवे इंफॉर्मेशन एण्ड टेक्नोलोजिस एजुकेशन कॉलेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	11337	मैसर्स शिवालिक चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	12634	मैसर्स शिवालिक क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	22613	मैसर्स आर.ए. सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
21.	25297	मैसर्स उप्पल कंग इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	17461	मैसर्स इलीज़ा इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनांस लिमिटेड
23.	17231	मैसर्स पापुलर फॉरिस्टस लिमिटेड
24.	15851	मैसर्स नरेश इन्फोसिस लिमिटेड
25.	22098	मैसर्स श्री हरदेवा एगो इण्डिया लिमिटेड
26.	25815	मैसर्स एल.वी. एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
27.	32133	मैसर्स रियल ट्रेड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	31432	मैसर्स एलकैमी एण्ड मोर लेबोरेट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
29.	17803	मैसर्स केनी क्लोदिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	24515	मैसर्स एस.एस.एस. डेकोरेटर्ज प्राईवेट लिमिटेड
31.	13973	मैसर्स कबीर डिपोजिट्स एण्ड एडवांसेस प्राईवेट लिमिटेड
32.	12151	मैसर्स बसंत हायर पर्वेस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
33.	23726	मैसर्स अग्रवाल मर्चेंडाइज प्राईवेट लिमिटेड
34.	28022	मैसर्स जी.एच.एम.आर. टूल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	15324	मैसर्स कमांड ऑर्गेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	30544	मैसर्स एन.सी.बी. पॉलिमर्स लिमिटेड
37.	28959	मैसर्स बरनाला कॉलोनार्जिस प्राईवेट लिमिटेड
38.	25385	मैसर्स नाविक टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड
39.	30471	मैसर्स नम्बरदार रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
40.	21133	मैसर्स गोसल एयर कंडीशनिंग लिमिटेड
41.	08785	मैसर्स सी. ऑक्सार्ड प्राईवेट लिमिटेड
42.	25375	मैसर्स सिद्धार्थ कोरियर एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कल्पतरु मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी/32228/एस.टी.ए.560/200--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कल्पतरु मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :

कोलकाता, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. आरओसी/प.बं./आईपीसी/560(एस.एम.)/2009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी का नाम
1. 126084	मैसर्स रामकृष्णा कास्टिंग्स लिमिटेड
2. 108317	मैसर्स पुहोर टेक्नालोजिस प्राईवेट लिमिटेड
3. 102931	मैसर्स हिमगिरि कंज्यूमर केयर प्राईवेट लिमिटेड
4. 97568	मैसर्स न्यू सुधा (एफएल आफ शॉप) प्राईवेट लिमिटेड
5. 91929	मैसर्स इंफोविल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
6. 102869	मैसर्स मैफेयर मोबी-लिंक प्राईवेट लिमिटेड
7. 61281	मैसर्स कृपा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एस. एन. टायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. 560(3)एमसीए/जी.सी. शिलांग--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती

है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. एन. टायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दी. एन. चौधरी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नोबल टिंबर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. 560(3)एमसीए/आर.ओ.सी./एनाकुलम/560/2010/00004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नोबल टिंबर ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पडिज़ारेकरा कर्मशियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. 560(3)एमसीए/आर.ओ.सी./एनाकुलम/560/2010/00089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पडिज़ारेकरा कर्मशियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेब एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 22 अप्रैल 2010

सं. 560(3)एमसीए/आर.ओ.सी./एनाकुलम/560/2010/00031--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वेब एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. एम. अमीरुल मिल्लथ
कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल एण्ड लक्षद्वीप

कंपनी अधिनियम 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में :

कटक-753001, दिनांक 21 अप्रैल 2010

सं. आर.ओ.सी/560(3)/453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
01.	15-000882	मैसर्स मंदाकिनी पेपर एण्ड एलॉयड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
02.	15-005201	मैसर्स सकर हाउसिंग डेवेलोपर्स एण्ड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
03.	15-008377	मैसर्स गायत्री पॉलीटेक ट्रेडिंग कम्पनी (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
04.	15-011249	मैसर्स केनसन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स दक्षिण वाटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दक्षिण वाटर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स गैटवे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गैटवे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स मॉडर्न कीच्चेन एयीट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00068--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मॉडर्न कीच्चेन एयीट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और
मैसर्स कॉमटेक साफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00054--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कॉमटेक साफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स क्लीकयोन ई-सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00095--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्लीकयोन ई-सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स इम्पावर इंफोसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00112-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इम्पावर इंफोसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और

मैसर्स स्टोन टैरेन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00033-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्टोन टैरेन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कंपनी अधिनियम 1956 और मैसर्स फर्स्ट क्लास प्रोपर्टीज एण्ड

इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 20 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/का.क.म./कं.पं.-चेन्नै/धारा 560/2010/00081-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फर्स्ट क्लास प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. सी. दवे

कम्पनी रजिस्ट्रार

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 22nd April 2010

No. DP/Pers.I/2010/1195/3/8/2010—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Sharma, IPS (RJ : 1990) as Dy. Inspector General of Police in the Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the forenoon of 12.04.2010 for a initial period of five years or until further orders.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE)

New Delhi-110003, the 21st April 2010

No. 11/20/2009-Adm.(FS)—The President is pleased to appoint Dr. A. K. Srivastava as Senior Scientific Officer Grade-II (Explosives) in the Central Forensic Science Laboratory, Hyderabad under the Directorate of Forensic Science an officiating promotion with effect from March 01, 2010 in the Pay Band PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/-.

C. N. BHATTACHARYYA
In-charge-Director-cum-Chief Forensic Scientist

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 19th April 2010

No. O-II-6393/2010-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 07.01.2010 for Voluntary Retirement from service, Shri K. R. Hiremath, Assistant Commandant (IRLA : 6393) of GC, CRPF, Siliguri relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st April, 2010. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 01.04.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN
DIG (Pers.)

New Delhi-110003, the 16th April 2010

No. P.III-2/2010-Min—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri P. K. Majumdar, (IRLA : 6356) of Internal Audit Party, III, CRPF, New Delhi, has relinquished the charge of the post of Joint Assistant Director in the afternoon of 31.03.2010.

R. N. MISRA
DIG (Organisation)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-110003, the 12th April 2010

No. A-17011/18(H-51)/2009-Admn.I—Shri Harmesh Chander Bhanot, Extra Assistant Director of this Directorate

has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.03.2010.

P. K. SINGHAL
Dir.

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 23rd April 2010

No. E-16015/60/NIA/Pers.I/PF/74—Consequent upon appointment as Deputy Superintendent of Police in the office of Director General, National Investigation Agency, New Delhi on deputation basis for a period of three years, Shri Devender Singh Balu, Assistant Commandant has relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF, 4th Res. Bn. Jaipur, w.e.f. 10.08.2009.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

No. E-16013/1/1/03/Pers.II/75—On repatriation to parent cadre, Shri Anurag Sharma, IPS (AP : 1982), Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of IG, CISF, NISA, Hyderabad in the afternoon of 17.04.2010.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 20th April 2010

No. 1/39/2008-Ad.III—The President is pleased to appoint Shri Hage Kojee, IAS (AGMU : 93), an officer belonging to AGMU Cadre of the Indian Administrative Services as Director of Census Operations, Puducherry on additional charge basis with effect from 22.01.2010 (FN) and up to May, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

2. The Headquarters of Shri Hage Kojee will be at Puducherry.

S. KANNAPPAN
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 16th April 2010

No. Admn. I/Prom./5-4/2010-2011/03—As per Headquarters Office letter No. 697-6 PC/GE-II/22-2009 dated

27.05.2009 the following Section Officers of this office have been re-designated as "Assistant Audit Officer" in the Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- and are classified as Group 'B' Gazetted with effect from 27.05.2009 vide Office Order No. 34 dated 17-06-2009 :—

Sl. No.	Name of the Official
1	2
	(S/Sri/Smt.)
1.	J.S.R. Chandra Sekhar
2.	Husanara
3.	K. Subhashini
4.	G. B. Subramanya Sarma
5.	D. Srivalli
6.	V. Swaminathan
7.	D. Sangeetha
8.	T. Nagi Reddy
9.	P. Vijaya Lakshmi
10.	B. Vijayalakshmi
11.	Brajesh Kumar
12.	Deepak Singh Khatri
13.	Shiv Shanker
14.	Subodh Kumar
15.	Anand Prakash Dwivedi
16.	Dhawal Kishor Singh
17.	Arjun Singh
18.	B. Nirmala
19.	Pritam Kumar
20.	Krishna Bihari Yadav
21.	Vinay Kumar
22.	Arun Lal Choudhary
23.	Mohinder Singh
24.	Ravindra Prasad
25.	B. Durga Nageswara Rao
26.	K. Raghu Raj
27.	A. Padmalatha
28.	K. Rama Krishna
29.	M. Srinivas-III
30.	J. Naga Srinivasa Rao
31.	P. Subramaniam
32.	L. S. Visweswara Reddy
33.	V. Kumar Yona

1	2
	(S/Sri/Smt.)
34.	C. Venuvmadhav
35.	K. Eswarachari
36.	G. Srinivas
37.	Mohd. Shareef Shaik
38.	A. Meher Kalyan Kumar
39.	R. Babu Rao
40.	P. Ramesh
41.	M. Padmavathy
42.	V. Jyothi
43.	M. Janardhana Raju
44.	C.V.S.S.V.R. Prasad
45.	K. Surekha
46.	R. Prabhakar
47.	N. Rama Devi
48.	M. Janaki Devi
49.	R. Jaya Prada
50.	Surampudi V. V. S. Prasad
51.	T.V. Ramana
52.	R. Jayaraman
53.	A. Mahadevan
54.	G.V.S. Prasad
55.	V.N.V. Sobhanadri Swamy
56.	V. Chandramouli
57.	A.R.K.V. Ramana
58.	I. Phanindra
59.	V.V.S. Prasad
60.	K. Rajeswara Dayal
61.	M.T.N.S. Reddy
62.	G. Gangadhara Rao
63.	P.R. Chandrasekhar
64.	M.V. Seshu Babu
65.	V. Vijaya Kumari
66.	Bh. Vasantha Lakshmi
67.	Suresh Kanvapuri
68.	T.C. Rama Rao
69.	Anurag Krishna
70.	Sanjeev Kumar
71.	Sumant Kumar

1	2	1	2
	(S/Sh./Smt.)		(S/Sri/Smt.)
72.	Naorem Basanta Singh	110.	J. Sri Krishnaveni
73.	Norbu Wangdi Dukpa	111.	V. Ramesh Kumar
74.	R. Bhanu Murthy	112.	S. Dhanraj Reddy
75.	D.V.V. Rama Das	113.	P.S. Atyuthachari
76.	Imtiaz Ahmed	114.	K. Narsing Rao
77.	C. Surender Reddy	115.	D. Murali Krishna
78.	K.P. Vijaya Venorica	116.	R. Jagadish
79.	P. Jyothi Rani	117.	Marry Jaya Jose
80.	Ramachandra Sahu	118.	R. Anitha Kumari
81.	K. Manasa Kumari	119.	V. Sreenivasa Chari
82.	B. Jeevan Babu	120.	Sardar Arjun Singh
83.	K. Srinivas Reddy	121.	Kalpana
84.	B. Rukmini Nadh	122.	P. Sudhakar
85.	S. Geeta Kumari	123.	M. Chandra Sekhar
86.	K. Satyanarayana-VII	124.	M. V. S. Phani Kumar
87.	R.V. Siva Ramakrishna	125.	K.V. Seshayasokrishna
88.	S. V. S. S. Prasad	126.	T. Rama Prasad
89.	M. Gangadhar Prasad	127.	Y. Tejoravi Kumar
90.	Ch. V. Bhaskara Rao	128.	A. Rajani Kanth
91.	J. Srinivasa Rao-II	129.	V. Ravindra Kumar
92.	S. Narsingh Rao	130.	Hemant Kumar
93.	B. R. K. Srinivasa Murthy	131.	Amit Kumar
94.	G. P. Subrahmanyam	132.	H. Rajeshwar
95.	D. Padmaja	133.	V. Ravi Chandra Kumar
96.	Avinash Kulkarni	134.	A.R. Sharmila
97.	K. Sekhar	135.	K. Govinda Rao
98.	V. Nagaraj Rao	136.	C. Srilatha
99.	G. Ramakrishna	137.	G. Vijay Kumar
100.	Padla C. N. M. K. Rao	138.	V. N. V. Kameswara Rao
101.	Geeta Sri Panda	139.	Ch. Muralidhar
102.	K. Chandrasekhar	140.	Y. Jayaram
103.	G. Padmaja	141.	K. Hari Babu
104.	M. Ratnaker	142.	M. L. Madhava Rao
105.	E. R. S. Sujjan Kumar	143.	Abudl Kareem Ansari
106.	D. Ramesh Kumar	144.	K. Nagaraju
107.	N. Ravi Kumar	145.	D. Sridhar Kumar
108.	C. Anand Raj		
109.	S. Jagan Mohan		

P. MADHAVI
Sr. DAG (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 20th April 2010

No. Admn.I/A&E/I/4-26/2010-2011/21—The Principal Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to regularise the undermentioned Ad hoc Assistant Accounts Officer to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the date shown against his name :—

Sl. No.	Name	O.O.No. & Date	Date of assumption of charge as A.A.O.
1.	Shri K. Jayaram	Admn.I/A&E/I/4-26/2009-2010/128 dt. 12.03.2010	12-03-2010 Forenoon

The regularisation order is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/ Supreme Court/ Central Administrative Tribunal.

E. SRINIVASAN
Sr. Dy. Accountant Genl. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
KERALA

Thiruvananthapuram, the 23rd April 2010

No. O.E./E&C/EIVP/11.—The following officials of IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. K. R. Sujatha	Senior Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31-03-2010 AN (Superannuation)
2.	Smt. G. Jaya Kumari	Senior Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31-03-2010 AN (Superannuation)
3.	Shri D. Simon	Senior Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31-03-2010 AN (Superannuation)
4.	Smt. K. Indira (No. 2)	Senior Accounts Officer Branch Office, Thrissur	31-03-2010 AN (Superannuation)
5.	Smt. C. K. Leela	Asstt. Accounts Officer Main Office, Trivandrum	31-03-2010 AN (Superannuation)
6.	Shri K. C. Rajan	Asstt. Accounts Officer Branch Office, Kozhikode.	31-03-2010 AN (Superannuation)

K. VIJAYKUMARAN
Sr. Dy. Accountant Genl. (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-16, the 21st April 2010

No. 1269A/A-19011/2-RKC/2008/19B—The President is pleased to appoint Sh. Chiluvuru Ravi Kumar to the post of Geophysicist (Junior) in Geological Survey of India in the Pay Band-3, Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- as per normal rules on temporary basis with effect from 27.01.2010 (FN) until further orders.

D. K. SAHA
Director (Geophysics)
For Director General

No. 1270 A/A-19011/2-VK2008/19B—The President is pleased to appoint Sh. Vivek Kumar to the post of Geophysicist (Junior) in Geological Survey of India in the Pay Band-3, Scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- as per normal rules on temporary basis with effect from 25.11.2009 (FN) until further orders.

D. K. SAHA
Director (Geophysics)
For Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 8th March 2010

No. PD/2(1)(ii)/2008/R-IV/2485—The President is pleased to appoint the undermentioned persons in Bhabha Atomic Research Centre to the posts, in the scale of pay, with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, until further orders :—

Sl. No.	Name	Appointed as	Scale of Pay (Rs.)	Date of appointment
1.	Sh. D. Srinivas	Scientific Officer/ 'C'	15,600—39,100/-+5,400/- (Grade Pay)	12.01.2010 (FN)
2.	Dr. Niraj Sharad Kasat	Scientific Officer/ 'D'	15,600—39,100/-+6,600/- (Grade Pay) + NPA	01.02.2010 (FN)

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 31st March 2010

Ref.: PD/11(1)/2010-R-III/2010/3135—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. Radhakrishnan, Assistant as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 08.02.2010 (FN) to 31.03.2010 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 12th April 2010

Ref.: PD/7(17)/2009-R-IV/SO(C)/ETG (Feb case)/3362—
The President is pleased to appoint the undermentioned
Scientific Officers/Engineers Grade 'SB' Pay Band of
Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay of Rs. 4,800/- of the Bhabha
Atomic Research Centre as Scientific Officer/Engineer Grade
'C' in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay
Rs. 5,400/-, in the same Research Centre with effect from
the forenoon of July 1, 2009, in an officiating capacity until
further orders :

Sl.	Name of the Officer
No.	

1. Sh. Manickavasagam Bharathiraja
2. Sh. Mohan Mukunthan

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

CORRIGENDUM

No. PD/7(17)/2009-R-IV/TO(C)/ETG/33473—Reference
Notification No. PD/7(17)/2009-R-IV/TO(C)/ETG/2472
dated March 8, 2010. The effective Pay Band shown in the
abovementioned Gazette Notification may be corrected to
read as "Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 5,400/-" instead
of "Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay Rs. 5,400/-".

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

The 16th April 2010

No. PD/4(6)/2007-R-III/2010/3474—Controller, Bhabha
Atomic Research Centre appoints Shri Ravindra Vasant Bilgi,
Stenographer Gr.-I to the post of Private Secretary (Non-
Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon
of 02.02.2010, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- +
Grade Pay of Rs. 4,200/- in this Research Centre until further
orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

No. PD/4(6)/2007-R-III/2010/3475—Controller, Bhabha
Atomic Research Centre appoints Smt. Jayashree Sadashivan
Nair, Stenographer Gr.-I to the post of Private Secretary
(Non-Secretariat) on regular basis with effect from the
forenoon of 02.02.2010, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—
34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,200/- in this Research Centre
until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 26th March 2010

No. 6(2389)04-Admn/2975—Additional Secretary to the
Government of India, Department of Atomic Energy (DAE)
hereby appoints Smt. Sunita D. Patil, Assistant (Pay Band
of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,200/-), DAE
Secretariat, Mumbai on promotion as Section Officer in the
Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of
Rs. 4,800/- in the Department of Atomic Energy Secretariat
with effect from the afternoon 11th March, 2010.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

No. 6(2442)/2006-Admn/2976—The President is pleased
to extend the tenure of Shri O.T.G. Nair, Under Secretary
(Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of
Rs. 6,600/-) Department of Atomic Energy Secretariat,
Mumbai for a further period of one year from 14.03.2010
or until further orders, whichever is earlier.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

The 29th March 2010

No. 6(2524)/2010-Admn/3002—The President is pleased
to appoint Smt. Meenaxi Rawat, (IES) : 93) as Director
(Finance) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade
Pay of Rs. 8,700/- in the Department of Atomic Energy
Secretariat, Mumbai with effect from March 15, 2010 for a
period of five years or until further orders, whichever is
earlier.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400094, the 15th April 2010

No. DPS/07020/Rectt./1542—The President is
pleased to appoint Smt. Malathi Shivkumar, Assistant
Stores Officer Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with
Grade Pay of Rs. 5,400/-, Central Stores Unit, Mumbai, as
Stores Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/-
with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Stores Unit, RRCAT,
Indore, with effect from the forenoon of 5th April 2010,
until further orders.

CATHERINE RAJ
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 16th April 2010

No. HWBR26(2)/2010/285—The President is pleased to appoint the following Group 'A' Officers of Heavy Water Board (Central Office) & Heavy Water Plants (Baroda/Manuguru/Kota), Department of Energy, Mumbai in a Substantive Capacity with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Unit HWB/HWP	Grade in which appointed substantively	Confirmation w.e.f
HWP (BARODA)					
	S/Shri/Kum.				
1.	Vijay Chatterjee	Scientific Officer/C	Baroda	Scientific Officer/C	01.10.2009
2.	Nitin Rawat	Scientific Officer/C	Baroda	Scientific Officer/C	01.10.2009
3.	Kum. Satyashwini R. Iyer	Scientific Officer/C	Baroda	Scientific Officer/C	01.10.2009
4.	Anurag Dixit	Scientific Officer/C	Baroda	Scientific Officer/C	01.04.2010
HWP (MANUGURU)					
5.	M. Saida	Scientific Officer/C	Manuguru	Scientific Officer/C	01.04.2008
6.	Sushil Kumar	Scientific Officer/C	Manuguru	Scientific Officer/C	01.10.2009
7.	Denwer Lopez	Scientific Officer/C	Manuguru	Scientific Officer/C	01.10.2009
HWP (KOTA)					
8.	Rakesh Kumar Joshi	Scientific Officer/D	Kota	Scientific Officer/D	01.10.2009
9.	Sushil Kumar	Scientific Officer/C	Kota	Scientific Officer/C	01.10.2009
10.	Abhimanyu S. Dhakar	Scientific Officer/C	Kota	Scientific Officer/C	01.10.2009
11.	Chandrashekhar M. Duddagi	Scientific Officer/C	Kota	Scientific Officer/C	01.10.2009
12.	Ashok Kumar	Scientific Officer/C	Kota	Scientific Officer/C	01.10.2009
13.	Satish Kumar Mishra	Scientific Officer/C	Kota	Scientific Officer/C	01.10.2009
HWP (CO)					
14.	Ruchir Sharma	Scientific Officer/C	HWB(CO)	Scientific Officer/C	01.10.2009

G. M. NAIR
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 08th April 2010

No. NFC/PAR-I/03/58/283—Chief Executive, NFC appoints Shri A. Parthasarathy, Steno Gr.I to officiate as Assistant Personnel Officer on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 07.04.2010 to 07.05.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 21st April 2010

No. A-19011/04/2009-E.II—The President is pleased to accept the notice under Rule 48 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 of Shri R. Chinnadurai, Deputy Director General (Aircraft Engineering Directorate), in the Office of the Director General of Civil Aviation regarding voluntary retirement with effect from 01.05.2010 (Forenoon) and Shri R. Chinnadurai, Deputy Director General (Aircraft Engineering Directorate) in the Office of the Director General of Civil Aviation stands relieved of his duties with effect from the forenoon of 01.05.2010.

K. UNNIKRISHNAN
Dy. Dir. of Admn.

The 26th April 2010

No. A. 39012/1/2010-E.II—The President is pleased to accept the resignation of Shri Jagannath Mondal, Senior Airworthiness Officer, in the Civil Aviation Department from the Government service and he is relieved of his duties with effect from 26.04.2010 (Afternoon).

K. UNNIKRISHNAN
Dy. Dir. of Admn.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/O REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Chandigarh, the 20th April 2010

No. ROC/560(5)/2009—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	30712	M/s. Alchemist Well-Being Private Limited
2.	16681	M/s. Krazy Foods Private Limited

1	2	3
3.	27209	M/s. Aster Appliances Private Limited
4.	32002	M/s. Bee Ess Aviation Private Limited
5.	25628	M/s. Navigator Managing And Consulting Private Limited
6.	27354	M/s. Kandhari Aviation Services Private Limited
7.	07596	M/s. K. Shuttles India Limited
8.	12107	M/s. Dashmesh Fab Yarns Limited
9.	04535	M/s. Dashmesh Bio Pharmaceuticals Private Limited
10.	13263	M/s. TCL Employees Welfare Company Private Limited
11.	20921	M/s. Dashmesh Telecommunication Private Limited
12.	20423	M/s. Mann Hospital and Maternity Home Private Limited
13.	29720	M/s. Mandi Gobindgarh Power Plant Private Limited
14.	17323	M/s. Silvertec Forest India Limited
15.	23132	M/s. Twenty Second Century Technologies Private Limited
16.	25782	M/s. Navik Internet Service Provider Private Limited
17.	19048	M/s. Highway Information and Technology Education College Private Limited
18.	11337	M/s. Shivalik Chits Private Limited
19.	12634	M/s. Shivalik Credits Private Limited
20.	22613	M/s. R A Softech Private Limited
21.	25297	M/s. Uppal Kang Impex Private Limited
22.	17461	M/s. Eliza Investment and Finance Limited
23.	17231	M/s. Popular Forests Limited
24.	15851	M/s. Naresh Infosys Limited
25.	22098	M/s. Shri Hardeva Agro India Limited
26.	25815	M/s. L V Estates Private Limited
27.	32133	M/s. Real Trade Marketing Private Limited
28.	31432	M/s. Alchemy & More Laboratories Private Limited
29.	17803	M/s. Keni Clothing Private Limited
30.	24515	M/s. SSS Decorators Private Limited
31.	13973	M/s. Kabir Deposits and Advances Private Limited

1	2	3
32.	12151	M/s. Basant Hire Purchase and Leasing Private Limited
33.	23726	M/s. Aggarwal Merchandise Private Limited
34.	28022	M/s. GHMR Tool Products Private Limited
35.	15324	M/s. Command Organics Limited
36.	30544	M/s. NCB Polymers Private Limited
37.	28959	M/s. Barnala Colonisers Private Limited
38.	25385	M/s. Navik Technologies Private Limited
39.	30471	M/s. Numberdar Real Estates Private Limited
40.	21133	M/s. Gosal Airconditioning Limited
41.	08785	M/s. C. Oxide Private Limited
42.	25375	M/s. Siddarth Couriers and Cargo Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab, H.P & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kalptaru Marketing Private Limited
Ahmedabad-380013, the 21st April 2010

No. 560(3)/ MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2009/
000397/1508—Notice is hereby given pursuant to sub-
section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that
at the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Kalptaru Marketing Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies :
Kolkata, the 22nd April 2010

No. ROC/WB/IPC/560(SM)/2009—Notice is hereby
given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the
Companies Act, 1956 that the name of the following
Companies has this day been struck off the register and the
said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	126084	M/s. Ramkrishna Castings Limited
2.	108317	M/s. Puhor Technologies Private Limited

1	2	3
3.	102931	M/s. Himgiri Consumer Care Private Limited
4.	97568	M/s. New Sudha (F.L. Off Shop) Private Limited
5.	91929	M/s. Infowill Network Limited
6.	102869	M/s. Mayfair Mobi-Link Private Limited
7.	61281	M/s. Kripa Exports Private Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. N. Tyres Private Limited

Shillong-793001, the 21st April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2010/00181/
65—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. S N Tyres Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY
Asstt. Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Novel Timber Traders Private Limited

Ernakulam-682021, the 21st April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2010/00004—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of
three months from the date hereof the name of M/s. Novel
Timber Traders Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Padinjarekara Commercial Co. Private Limited

Ernakulam-682021, the 22nd April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2010/00089—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Padinjarekara Commercial Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Veb Energy Private Limited

Ernakulam-682021, the 22nd April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Ernakulam/sec 560/2010/00031—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Veb Energy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Cuttack-753001, the 21st April 2010

No. ROC/Sec. 560(3)/453—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company Name of the Company
1.	15-000882 M/s. Mandakini Paper and Allied Industries Private Limited
2.	15-005201 M/s. Sakaar Housing Developers and Real Estate Private Limited
3.	15-008377 M/s. Gayatri Polytech Trading Co. India Private Limited
4.	15-011249 M/s. Kensun Iron and Steel Company Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dakshin Water Company Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00248—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dakshin Water Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gateway Engineering Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00101—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gateway Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Modern Kitchen Aids Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00068—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modern Kitchen Aids Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comtec Software Solution Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00054—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Comtec Software Solution Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Clickone E-Services Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00095—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Clickone E-Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Empower Infoservices Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00112—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Empower Infoservices Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Stone Terrain India Private Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00033—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Stone Terrain India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. First Class Properties and Investment Private
Limited

Chennai-600034, the 20th April 2010

No. 560(3) MCA/RoC-Chennai/sec 560/2010/00081—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. First Class Properties and Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands